



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1509]
No. 1509]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 5, 2007/अग्रहायण 14, 1929
NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 5, 2007/AGRAHAYANA 14, 1929

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2007

का.आ. 2093(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि आंध्र प्रदेश राज्य के महबूबनगर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के 133.000 कि.मी. से 203.000 कि.मी. तक के भूखंड (हैदराबाद-बंगलौर सेक्शन) का निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् संयुक्त कलक्टर, जिला महबूबनगर को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि-व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भूरेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 7 के 133.000 कि.मी. से 203.000 कि.मी. तक (हैदराबाद-बंगलौर सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण :-

क्रम संख्या	तल	तालुक/परिमंडल का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	महबूबनगर	1. कौथाकोटा	(1) अम्बाडबाकुला	125/3	निजी	शुष्क	0-04
			(2) मिरसापल्ली	320/4	निजी	शुष्क	0-29
				विलेज सैट (चि. मी.)	निजी	शुष्क	0.10
			(3) मम्मलापल्ली	ग्राम कंट	निजी	शुष्क	1-10
			(4) नयतापल्ली	13/2	निजी	शुष्क	2-03
				13/3	निजी	शुष्क	0-06
				13/4	निजी	शुष्क	0-02
				127/3	निजी	शुष्क	1.20
				218/3	निजी	शुष्क	0.08
				ग्राम कंट	निजी	शुष्क	0.30
		2. घानापल्ली	मंथापल्ली	136/2	निजी	शुष्क	0-18
		3. पेबड़यार	(1) टोमलापल्ली	126/3	निजी	शुष्क	0-01
				132/3	निजी	शुष्क	0-23
				133/3	निजी	शुष्क	0-18
				147/3	निजी	शुष्क	0-09
				148/3	निजी	शुष्क	0-05
			(2) पेबड़यार	551/3	निजी	शुष्क	0-25
				559/3	निजी	शुष्क	0.33
				563/3	निजी	शुष्क	1.04
				805/2	सरकारी	शुष्क	1.10
				848/3	निजी	शुष्क	0.39
				915/3	निजी	शुष्क	0.43
				917/3	निजी	शुष्क	0.08
				524/2	निजी	शुष्क	0-03
				468/2	निजी	शुष्क	0-14
				846/4	निजी	शुष्क	0.39
			(3) रंगापुर	474/2	निजी	शुष्क	0-05
				475/2	निजी	शुष्क	0-09
				476/2	निजी	शुष्क	0-04
				339/4	निजी	शुष्क	0.02
		4. इटिकयान	(1) टिमपापुर	413/4	निजी	शुष्क	0.16
				424/2	निजी	शुष्क	0.10
			(2) कोडईयार	459/2	निजी	शुष्क	0-10
				141/2	निजी	शुष्क	0-06
			(3) बेमुला	414/2	निजी	शुष्क	0.28
				419/2	निजी	शुष्क	0.10

				412/2	निजी	शुक्क	0.10
				150/2	निजी	शुक्क	0.10
				153/2	निजी	शुक्क	0.10
			(4) धर्मावरम	437/2	निजी	शुक्क	0.10
	5. मनोपद	(1) नारायणपुर		73/4	निजी	शुक्क	0-04
				32/5	निजी	शुक्क	0-04
				33/4	निजी	शुक्क	0-03
				33/5	निजी	शुक्क	0-03
				35/2	निजी	शुक्क	0-04
				37/4	निजी	शुक्क	0-02
				37/5	निजी	शुक्क	0-03
				95/4	निजी	शुक्क	0-02
				96/4	निजी	शुक्क	0-03
				97/4	निजी	शुक्क	0-02
				98/4	निजी	शुक्क	0-03
				99/4	निजी	शुक्क	0-05
				100/4	निजी	शुक्क	0-01
				133/4	ईनाम भूमि	शुक्क	0-06
				133/5	ईनाम भूमि	शुक्क	0-01
				134/4	ईनाम भूमि	शुक्क	0-03
				136/4	निजी	शुक्क	0-01
				138/4	निजी	शुक्क	0-03
				138/5	निजी	शुक्क	0-02
				139/4	निजी	शुक्क	0-09
				141/4	निजी	शुक्क	0-05
				141/5	निजी	शुक्क	0-04
				160/4	निजी	शुक्क	0-17
				160/5	निजी	शुक्क	0-01
				161/4	निजी	शुक्क	0-02
				171/4	निजी	शुक्क	0.01
				179/4	निजी	शुक्क	0-05
				180/4	निजी	शुक्क	0-05
				181/4	निजी	शुक्क	0-06
				185/4	निजी	शुक्क	0-10
				185/5	निजी	शुक्क	0.05
				186/4	निजी	शुक्क	0-01

		(2) उन्नावेली	355/2	निजी	शुष्क	0-20
		(3) पुत्तूर	438/4	निजी	शुष्क	1.05
			439/4	निजी	शुष्क	3.03
			446/4	निजी	शुष्क	0.07
			446/5	निजी	शुष्क	0.06
			447/4	निजी	शुष्क	1.17
			448/4	निजी	शुष्क	0.05
			448/5	निजी	शुष्क	0.19
			450/4	निजी	शुष्क	1.02
			450/5	निजी	शुष्क	0.18
			442/4	भूदान	शुष्क	0.13
			442/5	भूदान	शुष्क	0.10
			443/4	निजी	शुष्क	0.23
			468/2	निजी	शुष्क	0.10
			253/4	निजी	शुष्क	0.02

[फा. सं. भाराप्र/11014/तक./एनएस-2/एलए/हैदराबाद/2007/भाग]

प्रभाकर, उप सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Road Transport and Highways)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd November, 2007

S.O. 2093(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No.7 on the stretch of land from Km 133.000 to Km. 203.000 (Hyderabad – Bangalore Section) in District Mahabubnagar, in the State of Andhra Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub- section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the Joint Collector, Mahabubnagar District, in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the proposed right of way of National Highway No.7 from km 133.000 to km 203.000 (Hyderabad-Bangalore Section) in Mahabubnagar District, in the State of Andhra Pradesh

Serial number	Name of the district	Name of the Mandal	Name of the village	Survey number	Type of land	Nature of land	Area (in Acres/Guntas)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mahabubnagar	1. Kothakota	(1) Ambadabakula	125/3	Private	Dry	0-04
			(2) Miraspally	320/4	Private	Dry	0-29
				Village site of GP		Dry	0.10
			(3) Mummalapally	Village site (Grama kantam)		Dry	1-10
			(4) Nyatavally	13/2	Private	Dry	2-03
				13/3	Private	Dry	0-06
				13/4	Private	Dry	0-02
				127/3	Private	Dry	1.20
				218/3	Private	Dry	0.08
				Village site (Grama kantam)		Dry	0.30
		2. Wanaparthi	Manthapally	136/2	Private	Dry	0-18
		3. Pebbair	(1) Thomalapally	126/3	Private	Dry	0-01
				132/3	Private	Dry	0-23
				133/3	Private	Dry	0-18
				147/3	Private	Dry	0-09
				148/3	Private	Dry	0-05
			(2) Pebbair	551/3	Private	Dry	0-25
				559/3	Private	Dry	0.33
				563/3	Private	Dry	1.04
				805/2	Govt	Dry	1.10
				848/3	Private	Dry	0.39
				915/3	Private	Dry	0.13
				917/3	Private	Dry	0.08
				524/2	Private	Dry	0-03
				468/2	Private	Dry	0-14
				846/4	Private	Dry	0.39
			(3) Rangapur	474/2	Private	Dry	0-05
				475/2	Private	Dry	0-09
				476/2	Private	Dry	0-04
				339/4	Private	Dry	0.02
		4. Itikyal	(1) Timmapur	413/4	Private	Dry	0.16
				424/2	Private	Dry	0.10
			(2) Kondair	459/2	Private	Dry	0-10
				141/2	Private	Dry	0-06
			(3) Vemula	414/2	Private	Dry	0.28
				419/2	Private	Dry	0.10

				412/2	Private	Dry	0.10
				150/2	Private	Dry	0.10
				153/2	Private	Dry	0.10
			(4) Dharmavaram	437/2	Private	Dry	0.10
		5. Manopad	(1) Narayanpur	73/4	Private	Dry	0-04
				32/5	Private	Dry	0-04
				33/4	Private	Dry	0-03
				33/5	Private	Dry	0-03
				35/2	Private	Dry	0-04
				37/4	Private	Dry	0-02
				37/5	Private	Dry	0-03
				95/4	Private	Dry	0-02
				96/4	Private	Dry	0-03
				97/4	Private	Dry	0-02
				98/4	Private	Dry	0-03
				99/4	Private	Dry	0-05
				100/4	Private	Dry	0-01
				133/4	Inam Land	Dry	0-06
				133/5	Inam Land	Dry	0-01
				134/4	Inam Land	Dry	0-03
				136/4	Private	Dry	0-01
				138/4	Private	Dry	0-03
				138/5	Private	Dry	0-02
				139/4	Private	Dry	0-09
				141/4	Private	Dry	0-05
				141/5	Private	Dry	0-04
					Private	Dry	0-17
				160/5	Private	Dry	0-01
				161/4	Private	Dry	0-02
				171/4	Private	Dry	0.01
				179/4	Private	Dry	0-05
				180/4	Private	Dry	0-05
				181/4	Private	Dry	0-06
				185/4	Private	Dry	0-10
				185/5	Private	Dry	0.05
				186/4	Private	Dry	0-01

			(2) Undavelly	355/2	Private	Dry	0-20
			(3) Pullur	438/4	Private	Dry	1.05
				439/4	Private	Dry	3.03
				446/4	Private	Dry	0.07
				446/5	Private	Dry	0.06
				447/4	Private	Dry	1.17
				448/4	Private	Dry	0.05
				448/5	Private	Dry	0.19
				450/4	Private	Dry	1.02
				450/5	Private	Dry	0.18
				442/4	Bhudhan	Dry	0.13
				442/5	Bhudhan	Dry	0.10
				443/4	Private	Dry	0.23
				468/2	Private	Dry	0.10
				253/4	Private	Dry	0.02

[F.No. NHAI/11014/Tech./NS-2/LA/Hyd/2007/pt]

PRABHAKAR, Dy. Secy.